

June 01, 2022

To,

The Secretary
BSE Limited
The Stock Exchange, Mumbai
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

ISIN: INE417D01012 - IM+ CAPITALS LIMITED

<u>Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter & year ended on March 31, 2022 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on June 01,2022.

This is for your information and records.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

1 2P/

SAKSHI GOEL

For IM+ Capitals Limited

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

NEW DELHI

FINANCIAL EXPRESS

SUPER TANNERY LIMITED

CIN No.: L19131UP1984PLC00621 Regd. Office: 187/170, Jajmau Road, Kanpur - 208 010 (U.P);

Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792, Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2022. (Re in Lace)

		CONSOLIDATED							
SI. No.	Particulars	Three Months ended 31.03.2022 (Audited)	Three Months ended 31.12.2021 (Unaudited)	Three Months ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)			
1.	Total Income	6,549.63	4,342.56	6,671.57	22,350.17	19,235.20			
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	573.59	394.13	716.61	1,742.19	1,738.27			
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	298.87	90.97	367.07	718.35	607.61			
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	298.87	90.97	367.07	718.35	607.61			
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	152.10	66.27	302.53	456.64	476.14			
6.	Total Comprehensive Income for the period	180.31	72.23	326.46	474.53	490.95			
7.	Equity Share Capital (Face value of Rs 1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73			
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of Rs 1/-each) (Not Annualized *)	SE 1094		Sh brade	22,400				
i	Before Extraordinary Items (in Rs)	0.14	0.06	0.28	0.42	0.44			
ii	After Extraordinary Items (in Rs)	0.14	0.06	0.28	0.42	0.44			

Place: KANPUR

Date: 30.05.2022

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarter and nine months ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:www.bseindia.com and on the Company's website www.supertannery.com.

2. Key Standalone Financial Information:

	STANDALONE							
Particulars	Three Months ended	Three Months ended	Three Months ended	Year ended	Year ended			
	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)			
Total Income	6,353.66	4,564.19	6,718.54	22,259.18	19,202.72			
Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	522.54	394.39	708.14	1,687.01	1,721.32			
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	248.22	91.33	358.64	664.12	592.87			
	Total Income Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax Net Profit for the period before tax (after	Particulars Particulars Particulars Anold 31.03.2022 (Audited) Total Income Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax Net Profit for the period before tax (after 248.22	Three Months Months ended 31.03.2022 31.12.2021 (Audited) (Unaudited)	Three Months Months Months Months ended ended 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 (Audited) (Unaudited) (Audited)	Three Three Months Months Months ended ended ended 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited)			

For and on Behalf of the Board of Directors Iftikharul Amin **Managing Director** DIN No. 00037424

BINNY MILLS LIMITED

Regd. Office: NO.4, Karpagambal Nagar, Mylapore CIN L17120TN2007PLC065807

Statement of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 under Ind AS Rs in Lakhs

S. No	Particulars	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Year to date figures March 31, 2022 (Audited)	Corresponding quarter of previ- ous year ended March 31, 2021 (Audited)	Year to date figures March 31, 2021 (Audited)
1.	Total Income from Operations	261.28	863.65	219.45	4,017.97
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(253.16)	(1,032.33)	(265.19)	2,272.56
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	(253.16)	(1,032.33)	(265.19)	2,272.56
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(298.03)	(1,123.28)	(258.58)	2,225.32
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(297.53)	(1,123.84)	(259.91)	2,223.90
6	Paid up Equity Share Capital	318.85	318.85	318.85	318.85
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	(15,964.69)	NA	(14,840.85)
8.	Securities Premium Account	NA	-	NA	-
9.	Net Worth	NA	(15,645.84)	NA	(14,522.00)
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	NA	-	NA	
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	14,070.91	NA	14,070.91
12.	Debt Equity Ratio	NA	(0.90)	NA	(0.97)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discon- tinued operations)				
	a. Basic	(9.35)	(35.23)	(8.11)	69.79
	b. Diluted	(9.35)	(35.23)	(8.11)	69.79
14.	Capital Redemption Reserve	NA	29.40	NA	29.40
15.	Debenture Redemption Reserve	NA	-	NA	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	0.11	NA	0.13
17.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA

Note:

1. The above results for the quarter and year ended March 31, 2022 as audited and recommended by the Audit committee of the Board, has been approved by the Board of Directors at its meeting held on 30.05.2022

2. The statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

3. The figures for the quarter ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and unaudited published figures in respect of the financial results upto the third quarter of the respective financial years.

4. The above is an extract of the detailed format of the Statement of Audited Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 are available on the website of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com, on the Stock Exchange where the Company's shares are listed and on the website of the Company i.e., www.bmlindia.com

5. Cumulative Redeemable preference shares of the company is classified as Financial liability as per IND AS and hence the same is considered as debt for computing the ratios. Since the preference shares is a financial liability, preference dividend payable is treated as finance cost and the ratios has been computed accordingly. The Company does not have any borrowings other than Redeemable Preference Shares and hence interest service coverage ratio is not computed for Binny Mills Limited

Place: Chennai Date :30.05.2022

V. Rajasekaran

Managing Director

Prathama U.P. Gramin Bank Head Office: Ram Ganga Vihar-II, Kanth Road, Moradabad-244001 U.P.

POSSESSION NOTICE (Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

The undersigned being the Authorised officer of the PRATHAMA U.P. GRAMIN BANK under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the PRATHAMA U.P. GRAMIN BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details of

properties where possession had been taken is as follows: Outstanding Date of Date of Name of the

No.	Branch Name (Movable/Immovable)		Amount u/s 13(2)	Date of Demand Notice	Possession
1.	Borrower: M/s Azam Textiles, Sh. Shane Azam S/o Sh. Mohd. Yaseen (Proprietor), Sh. Babu Khan Ansari s/o Sh. Mohd. Shafi (Guarantor) & Sh. Mohd. Yaseen s/o Sh. Abdul Hakeem (Guarantor & Mortgagor) Branch: Naugawan Sadat, Amroha (UP)	A Building in which Handloom Factory is Running situated at Nai Basti, Naugawan Sadat, Amroha (UP), Area 1850 sq. mtrs., (In the name of Sh. Mohd. Yaseen S/o Sh. Adbul Hakeem), Bahi No. 1, Zild No. 1082, Pages: 117-148, Serial No.: 1472, Dated 14.02.2003, Registered at SRO-Amroha. Bounded: On the North by: House of Mehmood, On the South by: House of Al Qamar Ul Hasan, On the East by: Road, On the West by: Aarazi of Mohd. Yaseen	Rs. 14,49,014.23/- as on 01.07.2021 + Int. & Other Charges	04.09.2021	26.05.2022
2.	Borrower: M/s Limra Concept, Sh. Israr Ahmad s/o Sh. Mohd. Yaseen (Proprietor), Sh. Ibney Hasan S/o Sh. Shamsuddin (Guarantor), Sh. Mohd. Abbas s/o Sh. Razi Hasan (Guarantor) & Sh. Mohd. Yaseen s/o Sh. Abdul Hameed (Guarantor & Mortgagor) Branch: Naugawan Sadat, Amroha (UP)	A Residential Property Situated at Village - Mohalla Nai Basti, Tehsil & District- Amroha, (UP), Area 130.00 sq.mtrs., (In the name of Sh. Mohd. Yaseen s/o Sh. Abdul Hameed), Sale Deed Registered in Book No.: 1, Volume - 1486, Page No: 185-187, Serial No.: 1033, Dated 13.05.1980, SRO- Amroha, Bounded: On the North by: House of Sh. Abdul Hameed, On the South by: Arazi of Abdul Kareem, On the East by: Rasta, On the West by: House of Sh. Jameel Ahmad	Rs. 6,14,395.30/- as on 01.04.2021 + Int. & Other Charges	23.11.2021	26.05.2022

Dated: 31.05.2022. Place: Naugawan Sadat (Amroha) Authorized Officer: Prathama U.P. Gramin Bank

IM+ CAPITALS LIMITED

Regd. Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road, Connaught Place, New Delhi-110001 CIN: L74140DL1991PLC340407

Website: www.imcapitals.com, E-mail: imcapitalscompliances@gmail.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31st MARCH'2022

(Rs. in Lacs except in Earning Per Share)

	1	0	Stand	lalone		Consolidated				
SI.	Particulars	Quarter	r Ended	Yearly	Ended	Quarte	er Ended Yea		rly Ended	
No.	10150000000000000000000000000000000000	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total income from operations	1.07	64.65	215.43	326.69	18.11	114.65	293.57	546.40	
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(35.43)	42.38	64.55	181.75	(34.99)	(17.16)	96.57	169.69	
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(35.43)	42.38	64.55	181.75	(34.99)	(17.16)	96.57	169.69	
4.	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income/ (Loss) (after tax)]	(35.43)	43.31	64.55	182.84	(34.99)	(16.23)	96.57	170.78	
5.	Equity Paidup Share Capital	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	
6.	Earnings Per Share (not annualized) :				Sec	n 		ter SA	70.	
	Basic (₹)	(1.01)	1.21	1.84	5.19	(1.00)	(0.49)	2.76	4.85	
	Diluted (₹)	(1.01)	1.21	1.84	5.19	(1.00)	(0.49)	2.76	4.85	

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30.05.2022 The financial results for the guarter and year ended March 31st, 2022 have been audited by the Statutory Auditors of the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of audited standalone and consolodated Quarterly and yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.www.imcapitals.com

By order of the Board

Rs. In Lakhs

Place: New Delhi VISHAL SINGHAL Date: 30.05.2022 (Chairman)



JUPITER WAGONS LIMITED (FORMERLY COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO LIMITED) CIN: L28100MP1979PLC049375

Regd. office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter / Year Ended March 31, 2022 [See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

	10	75	100	Standalone					Consolidated		9
SI. No.	Particulars	Quarter Ended	Preceding Quarter ended	Corresponding quarter ended in the previous year		Year Ended	Quarter Ended	Preceding Quarter ended	Corresponding quarter ended in the previous year	Year Ended	Year ended
1111110		31 March 2022	31 December 2021	31 March 2021	31 March 2022	31 March 2021	31 March 2022	31 December 2021	31 March 2021	31 March 2022	31 March 2021
		Unaudited (Refer Note -4)	Unaudited (Refer notes 3 and 5	Unaudited (Refer notes 3 and 5)	Audited	Audited (Refer note 3)	Unaudited (Refer Note -3)	Unaudited (Refer notes 3 and 5	Unaudited (Refer notes 3 and 5)	Audited	Audited (Refer note 3)
1	Total Income from Operations	36,364.08	30,050.56	32,065.37	1,18,174.54	99,758.24	36,364.08	30,050.56	32,065.37	1,18,174.54	99,758.24
2	Net Profit for the period (before Tax)	2,158.67	1,376.29	1,828.07	7,602.00	6,589.75	2,137.32	1,370.57	1,826.24	7,564.43	6,579.30
3	Net Profit for the period (after tax)	1,399.43	915.26	1,468.41	5,003.07	5,350.08	1,378.08	909.54	1,466.58	4,965.50	5,339.63
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	933.19	1,438.35	5,004.64	5,303.11	1,339.00	927.47	1,436.52	4,967.07	5,292.66
5	Equity Share Capital	38,744.74	38,744.74	38,744.74	38,744.74	38,744.74	38,744.74	38,744.74	38,744.74	38,744.74	38,744.74
n	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	0/2/02/0	100 000-00-0000		v 0-00000	- V	2000	3 90000	V) 972240001C 177	A 100 (100 miles)	U 197002.69
	1. Basic:	0.36	0.24	0.38	1.29	1.50	0.36	0.23	0.38	1.28	1.49
	2. Diluted:	0.36	0.24	0.38	1.29	1.50	0.36	0.23	0.38	1.28	1.49

Place - Jabalpur

 The above Statement for the quarter and year ended 31 March 2022 of Jupiter Wagons Limited (Formerly known as Commercial Engineers and Body Builders Co Limited) ("the Company"), were reviewed by the Audi Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30 May 2022.

2. These results have been prepared in accordance, the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act'), and other accounting principles generally accepted in India and is in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), including relevant circulars issued by the SEBI from time to time.

3. The Board of Directors of the Company at its meeting held on 28 September 2020, had approved the Scheme of Amalgamation ("the Scheme") of the Company (formerly known as Commercial Engineers & Body Builders Co Limited "CEBBCO") with erstwhile Jupiter Wagons Limited ("erstwhile JWL"). The Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench on 28 February 2022 and Hon'ble National Company Law Tribunal Indore Bench on 13 May 2022 has pronounced the order approving the aforesaid Scheme of Amalgamation.

Accordingly, the Company has accounted for the merger using the acquisition method retrospectively for all the periods presented in the standalone financial results as prescribed in Ind AS 103 - Business Combination as reverse merger

Pursuant to the order the effective date of the Scheme is 01 October 2019. 1. The net assets of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed, of the Company (formerly known as CEBBCO), are fair valued on the effective date.

2. The existing shareholding of the erstwhile JWL in CEBBCO, comprising equity shares 40,666,835 of Rs. 10 each and non-cumulative redeemable preference shares 6,748,229 of Rs. 100 each, stands cancelled.

3. The Company has allotted 338,631,597 fully paid equity shares to the eligible shareholders of erstwhile JWL on 29 May 2022 out of which 279,020,064 fully paid shares are effective 1 October 2019 and balance 59,611,533 fully paid shares are effective 30 September 2020.

The name of the Company (formerly known as CEBBCO) has changed to Jupiter Wagons Limited w.e.f. 25 May 2022.

5. The previous periods' figures in standalone results have been accordingly restated from 1 October 2019. The result includes the impact of Amalgamation accounting adjustments in accordance with the applicable Ind

Particulars	Quarter ended 3	1 March 2021	Quarter ended 31	December 2021	Year ended 31 March 2021		
Particulars	Reported	Restated	Reported	Restated	Reported	Restated	
Revenue from operation	14,983.58	31,943.17	11,571.79	29,864.86	36,346.39	99,575.02	
Profit before tax	1,116.49	1,828.07	224.45	1,376.29	1,243.05	6,589.75	

*The Company (formerly known as CEBBCO) did not have subsidiary, joint venture or associate and hence had never published consolidated results before merger.

These results have been filed with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and is also available on the Company's website at www.cebbco.com.

4. The figures for the guarter ended 31 March 2022 are the balancing figures between the audited figures for the year ended as on that date and the year to date figures upto the end of third quarter which were reviewed by firm of Chartered Accountants other than statutory auditors.

5. 'The figures for the guarter ended 31 March 2021 and 31 December 2021 have not been audited or reviewed by our statutory auditors and are based on management certified financial information

6. The Company is mainly engaged in the business of metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicles and rail freight wagons in India. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute one single reportable segment. Accordingly, disclosures under Ind AS 108, Operating Segments are not applicable.

> For and on Behalf of the Board sd/-Abhishek Jaiswal

Date - 01.06.2022

Whole Time Director & C.E.O. DIN-07936627 New Delhi

financialexp.epap.in

शाखा २४६, आर्य पुरी,

टाउन हॉल रोड,

मुजफ्फरनगर

जानलेवा हमले किसानों की आवाज को नहीं दबा सकते: राकेश टिकेत

नोएडा, ३१ मई (भाषा)।

Place: Delhi

Date: 30.05.2022

(बी) डायल्यूटिड

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 30/05/2022

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने बंगलुरु में उन पर स्याही फेंके जाने के बाद कहा है कि काली स्याही और घातक हमले किसानों और मजदूरों की आवाज को दबा नहीं सकते। कर्नाटक की राजधानी के गांधी भवन में सोमवार को एक किसान संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान बदमाशों ने टिकैत पर स्याही फेंक दी। पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया

है। इसके बाद आयोजकों और बदमाशों ने

एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियों से निशाना बनाने वाले लोग भाजपा से थे। हमला किया। टिकैत ने इस घटना के लिए स्थानीय पलिस को जिम्मेदार ठहराया और में हैं। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया आरोप लगाया है कि उन पर हमला भाजपा नीत राज्य सरकार की मिलीभगत से किया गया था। किसान नेता ने ट्वीट किया, 'काली स्याही और घातक हमले इस देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज को दबा नहीं सकते।

लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी।' कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने इन आरोपों को खारिज किया है कि टिकैत को

उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के संपर्क है और उनसे पछताछ की जा रही है। मैं इस कृत्य की निंदा करता हं। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में एक संवाददाता सम्मेलन भी होना था, जो किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ एक स्टिंग आपरेशन के बाद संदेह को दूर करने के लिए बुलाया गया था और इसके लिए टिकैत को आमंत्रित किया गया था। बैठक में बदमाश पत्रकार बनकर आए और नोट लेने का नाटक किया।

GULSHAN HOMZ PRIVATE LIMITED Reg. Office:-121 Hargobind Enclave, Delhi-110092 Corporate Identification Number:-U70109DL1997PTC084494

Extract of Audited Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2022

(All amounts in INR lakhs unless otherwise stated)

		(7 ill alliodi	no in in vi i lancio ariio	oo ou loi wioo olaloaj
,	Quarter end	ded on	Year Er	nded on
31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
5,758.28	7,176.76	4,203.44	24,777.76	6,671.80
(2,345.11)	(250.32)	(208.62)	(2,894.94)	(372.76)
(2,345.11)	(250.32)	(208.62)	(2,894.94)	(372.76)
(2,534.03)	(422.84)	(302.24)	(3,443.14)	(511.90)
(2,545.22)	(422.84)	(306.13)	(3,451.99)	(513.95)
219.10	219.10	219.10	219.10	219.10
(4,873.81)	(2,328.58)	(1,421.82)	(4,873.81)	(1,421.82)
(4,654.71)	(2,109.48)	(1,202.72)	(4,654.71)	(1,202.72)
19,946.78	23,246.11	28,451.24	19,946.78	28,451.24
(4.09)	(9.98)	(20.01)	(4.09)	(20.01)
(115.66)	(19.30)	(13.79)	(157.15)	(23.36)
(115.66)	(19.30)	(13.79)	(157.15)	(23.36)
(0.27)	(0.05)	(0.06)	(0.27)	(0.06)
(2,825.22)	(307.86)	37.32	(1,041.21)	(87.11)
, , , , ,				
	(Unaudited) 5,758.28 (2,345.11) (2,345.11) (2,534.03) (2,545.22) 219.10 (4,873.81) (4,654.71) 19,946.78 (4.09) (115.66) (115.66) (0.27)	31.03.2022 31.12.2021 (Unaudited) (Unaudited) 5,758.28 7,176.76 (2,345.11) (250.32) (2,345.11) (250.32) (2,534.03) (422.84) (2,545.22) (422.84) 219.10 219.10 (4,873.81) (2,328.58) (4,654.71) (2,109.48) 19,946.78 23,246.11 (4.09) (9.98) (115.66) (19.30) (115.66) (19.30) (0.27) (0.05)	Quarter ended on 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 5,758.28 7,176.76 4,203.44 (2,345.11) (250.32) (208.62) (2,345.11) (250.32) (208.62) (2,534.03) (422.84) (302.24) (2,545.22) (422.84) (306.13) 219.10 219.10 219.10 (4,873.81) (2,328.58) (1,421.82) (4,654.71) (2,109.48) (1,202.72) 19,946.78 23,246.11 28,451.24 (4.09) (9.98) (20.01) (115.66) (19.30) (13.79) (115.66) (19.30) (13.79) (15.66) (19.30) (13.79) (0.27) (0.05) (0.06)	31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 5,758.28 7,176.76 4,203.44 24,777.76 (2,345.11) (250.32) (208.62) (2,894.94) (2,345.11) (250.32) (208.62) (2,894.94) (2,534.03) (422.84) (302.24) (3,443.14) (2,545.22) (422.84) (306.13) (3,451.99) 219.10 219.10 219.10 219.10 (4,873.81) (2,328.58) (1,421.82) (4,873.81) (4,654.71) (2,109.48) (1,202.72) (4,654.71) 19,946.78 23,246.11 28,451.24 19,946.78 (4.09) (9.98) (20.01) (4.09) (115.66) (19.30) (13.79) (157.15) (15.66) (19.30) (13.79) (157.15) (0.27) (0.05) (0.06) (0.27)

The above financial results for the quarter and year ended on March 31, 2022 have been reviewed by and subsequently approved by the Board of Directors at their Board Meeting held on 30.05.2022.

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड

0.09

0.28

The above is an extract of detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the guarter and year ended March 31, 2022 financial results are available at the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors

0.68

-0.20

0.03

Deepak Kapoor **Executive Director** DIN: 00462283

सीआईएन: L67	190DL1993P	LC052050				
31 माच, 2022 का समाप्त तिमाहा और वेप व	गत्र स्टब्जत	ान अकादात ।वर	to a lateral management of the Common and the Commo	and the second s	ाग को लोटका	
i ii				. (11(4) 1) 2411	(ti 41 bigar	
		समाप्त तिमाही		समा	प्त वर्ष	
विवरण	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
	अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	
प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	119.54	193.69	4,552.44	711.60	4,727.78	
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर, असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले)	30.22	93.99	15.92	228.58	33.40	
कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद)	30.22	93.99	15.92	228.58	91.78	
टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण वस्तुओं	22.52	70.33	(49.72)	170.95	7.11	
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ)(नुकसान) (कर के बाद)और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद) (नोट 3 देखें)	318.33	86.14	(43.51)	542.03	46.43	
पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर)	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62	
पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व				904.30	362.18	

(ए) बेसिक	0.09	0.28	-0.20	0.68	0.03	
	प्रवालन से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर, असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद) टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ)(नुकसान) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (टैक्स के बाद) (नोट 3 देखें) पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर) पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार रिवेल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व प्रति शेयर आय (रु- 10/- प्रति शेयर)	विवरण विवरण विवरण विवरण विवरण विवरण विवरण 31.03.2022 अकेक्षित प्रचालन से कुल आय (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर, असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं के वाद) विवस के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं के बाद) विवस के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण वस्तुओं 22.52 के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ)(नुकसान) (कर के बाद)और अन्य व्यापक आय (देवस के बाद) (नोट 3 देखें) पेड-अप इक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर) पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार रिवेल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व प्रति शेयर आय (रु- 10/- प्रति शेयर)	विवरण विवरण विवरण विवरण विवरण विवरण समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अंकेक्षित विवर्ष समाप्त तिमाही 31.03.2022 31.12.2021 अंकेक्षित अनअंकेक्षित प्रचालन से कुल आप (शुद्ध) अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर, असाधारण और असाधारण वस्तुओं से पहले) के बाद) टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और असाधारण वस्तुओं 30.22 93.99 के बाद) टैक्स के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और असाधारण वस्तुओं 22.52 70.33 के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ)(नुकसान) (कर के बाद)और 318.33 86.14 अन्य व्यापक आय (टेक्स के बाद) (नोट 3 देखें) पेड-अप इकटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- प्रति शेयर) पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार रिवेल्यूएशन रिजर्ब को छोड़कर रिजर्व प्रति शेयर आय (रु- 10/- प्रति शेयर)	सीआईएन: L67190DL1993PLC052050 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों क एक्सि समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रू. लाख में) ईपीए लाख में) ईपीए लाख में) ईपीए लाख में हैपीए लाख में लाख में लाख में हैपीए में हैपीए में हैपीए में हैपीए में हैपीए लाख में हैपीए लाख में हैपीए में हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है	

	31 मार्च, 2022 का समान्त तिमाहा और वर्ष के लिए कर	गायकट्य अकार	वृत ।वत्ताय पारण	तमा का विवरण		
	2			(4	. लाख में) ईपीए	एस को छोड़कर
			501	कंसोलिडेटेड		75
क्रम			समाप्त तिमाही		समा	प्त वर्ष
सं.	विवरण	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		अंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	119.54	193.69	4,552.44	711.60	4,727.78
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, सहयोगी के लाभ में हिस्सा, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	30.22	93.99	15.92	228.58	33.40
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) और सहयोगी के लाभ में हिस्सा (असाधारण और/पा असाधारण वस्तुओं के बाद)	30.22	93,99	15.92	228.58	91.78
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	766.41	246.04	120.76	1,598.35	1,026.21
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) (नोट 3 देखें)	1,061.22	261.85	126.97	1,969.43	1,065.53
6	पेडअप इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर 10/- रुपये का अंकित मूल्य)	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62	2,501.62
7	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर अन्य इक्रिटी	-	-	6-3	3,893.39	1,923.81
8	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रति शेयर)					100000000000000000000000000000000000000
	(क) बेसिक	3.06	0.98	0.48	6.39	4.10
	का डायल्यटिड	3.06	0.98	0.48	639	4.10

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंसोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

उपरोक्त 31.03.2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टेंडअलोन और कंसोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत पविस्तृत स्वरूप का एक सार है और सेबी (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत बीएसई लिमिटेड के साथ दायर किया गया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त उक्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की

वेबसाइट www.titansecuritieslimited.com पर उपलब्ध है। 2 31.03.2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उक्त घोषित अंकेक्षित स्टेंडलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है। सेबी के विनियमन 33 (नियमन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 के संदर्भ में जैसा संशोधित हुआ है के अनुसार उपरोक्त परिणामों का ऑडिट कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।

कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधध्यादेश 2019 द्वारा पेशा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत अनुमति दिए गए विकल्प को चुनने के लिए चुन है। तदअनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त उक्त तिमाही और वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान को मान्यता दी है और उक्त अनुभाग में निर्धारित दर के आधार पर अलग-अलग कर संतुलन को समाप्त कर दिया है। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 (संशोधित) में निर्दिष्ट

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कृते टायटन सिक्युरिटीज लिमिटेड मंजू सिंगला प्रबंध संचालक DIN-00027790 'प्रपत्र सं. आइएनसी—26' सामान्य सचना कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 वं उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में

वीआरएएस एवा इंकाटेक प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U01110DL2016PTC300256) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : जी–55 ग्राउड फ्लोर, मिडल

विंग ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 में स्थित है

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का अ रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" सं 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए दिनांक त्तोमवार ३० मई, २०२२ को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम द्वापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपध पत्र जिसमें चनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हं के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचन के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर वी-2 विंग द्वितीय तल. पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 परो पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

हरता./ राकेश छारिया स्थान : नई दिल्ली निदेशक

कृते वीआरएएस एग्रो इंक्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

ढीआईएन : 00247718 रिजस्ट्रीकृत कार्यालय: जी-55 ग्राउट क्लोर, मिडल विंग ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065

डिमांड इण्डियन ओवरसीन् बैक नोटिस प्रतिभृतिकरण व वित्तीय अस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के उप धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए गांग नोटिस दिनांक 31.05.2022 जारी किया है, आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस को मूल रूप में अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों क

화. सं.	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख
1,		आवासीय भूमि और मकान का साम्यिक बंधक निर्मित खसरा	31.05.2022
	शेरनगर, मुजपफरनगर, यूपी—251001 गारंटरः— तहसीन अली पुत्र इसराइल अली, मकान नंबर—291, शेरनगर, मुजपफरनगर, यूपी—251001	नंबर—512एम, गांव—शेरनगर, मिल्लात पब्लिक स्कूल के पास, मुजफ्फरनगर, यूपी—251001, सीमायें:— पूर्वः सड़क 15 फीट चौडी, पश्चिमः अलीशार का प्लॉट, उत्तरः रियासत की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति	नोटिस के अनुसार देय राशि रु० 9,87,930.00, + भविष्य ब्याज व अन्य खर्चे 16.05.2022 से
2.	प्रोप.— श्री विकास कुमार शर्मा पुत्र— सुरेश चंद शर्मा,	आवासीय भूमि और मकान का साम्यिक बंधक निर्मित प्लॉट नंबर — 6. गांव— अलमासपुर, खसरा नंबर—149 का भाग, मुजफ्फरनगर,	डिमांड नोटिस की तारीख: 31.05.2022
	251318 गारंटर:- श्रीमती सीमा पत्नी हरेंद्र सिंह, प्लॉट नंबर -6, शिव मंदिर के पास, अलमासपुर, मुजफ्फरनगर,	यूपी । साइट का कुल क्षेत्रफल 89.17 वर्ग मीटर, स्वामित्व— श्रीमती सीमा पत्नी श्री हरेंद्र सिंह, सीमायें:— पूर्व: रास्ता 15 फीट चौड़ा, पश्चिम: प्लॉट नंबर—5, उत्तर: रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट नंबर 7 दृष्टि बंधक:— ग्राम—गोयला, तहसील—बुढाना, मुजफ्फरनगर — 251318 में पढ़े कच्चे माल, वर्क इन प्रोसेस, तैयार माल, मशीनरी और अन्य चालू संपत्तियाँ सहित सभी प्रकार के स्टॉक	नोटिस के अनुसार देय राशि रु० 6,19,300.00, + भविष्य ब्याज व अन्य खर्चे 01.05.2022 से
3.	पुरानी आबकारी, पुलिस चौकी के पास, मुजपफरनगर, यूपी-251002	आवासीय भूमि और मकान का साम्यिक बंधक निर्मित मकान नंबर— 270, पुरानी आबकारी, पुलिस चौकी के पास, मुजफ्फरनगर, यूपी—251002, सीमार्थे:—पूर्व: सीसी लेन 5.50 फीट चौढ़ी, पश्चिम: श्री सुंदरलाल	डिमांड नोटिस की तारीखः 31.05.2022 नोटिस के अनुसार देय राशि

शेष भाग, दक्षिण: रास्ता उसके बाद श्रीमती अंगुरी देवी का मकान

स्थानः मुजफ्फरनगर

प्रतिभतिकरण तथा पूर्नानिर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुब्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड

दिनांक 31.05.2022

पंजीकृत कार्यालय: 72, भूतल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 सीआईएन : L74140DL1991PLC340407

270, पुरानी आबकारी, पुलिस चौकी के पास, मुजफ्फरनगर, की आवासीय संपत्ति, उत्तर: एक ही मालिक की एक ही संपत्ति का

वेबसाइट : www.imcapitals.com, ई-मेल : imcapitalscompliances@gmail.com

अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रुपये लाखा में प्रति शेयर

रु0 3,71,603.00, + मविष्य

ब्याज व अन्य खर्चे 27.05.2022 से

प्राधिकृत अधिकारी

			स्टैण्ड	एलोन			समे	कित	
Φ.	विवरण	समाप्त तिमाही		वार्षिक र	नमाप्ति	समाप्त	ा तिमाही	वार्षिक समाप्ति	
स.		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.202
		लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षात	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षात	लेखा परीक्षात	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षात
1.	प्रचालनों से कुल आय	1.07	64.65	215.43	326.69	18.11	114.65	293.57	546.40
2.	सामान्य से शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद की गतिविधयाँ)	(35.43)	42.38	64.55	181.75	(34.99)	(17.16)	96.57	169.69
3.	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/ (हानि) अपवादित तथा असाधारण मदों के पश्चात)	(35.43)	42.38	64.55	181.75	(34.99)	(17.16)	96.57	169.69
4.	कुल ञ्यापक आय/(हानि) वर्ष के लिए लाभ /(हानि) सहित वर्ष के लिए (कर के बाद) और अन्य ञ्यापक आय/(हानि) (कर के बाद)	(35.43)	43.31	64.55	182.84	(34.99)	(16.23)	96.57	170.78
5.	इक्विटी शेयर पूँजी	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16	350.16
6.	प्रति शेयर आय (वार्षिक नहीं)					M. T			
	बेसिक : (₹)	(1.01)	1.21	1.84	5.19	(1.00)	(0.49)	2.76	4.85
	डाइल्युटेड : (₹)	(1.01)	1.21	1.84	5.19	(1.00)	(0.49)	2.76	4.85

1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई और लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई और निदेशक मंडल द्वारा 30.05.2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों का लेखा परीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षाकों द्वारा किया गया है।

2. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर लेखापरीक्षित स्टॅंडअलोन और समेकित तिमाही और वार्षिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय का पूर्ण प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.www.imcapitals.com पर उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली तिथि: 30.05.2022 विशाल सिंघल (अध्यक्षा)

(रू. लाख में, सिवाय ईपीएस)

जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड सीआईएन : L65923UP2012PLC051433

पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम. हापुड़ बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश-203408 कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी-1, एल.एस.सी., वसंत कुज, नई दिल्ली-110070 वेबसाइट : www.jpifcl.com, ई-मेल : cs_jpifcl@jindalgroup.com, फोन : 011-40322100

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

समेकित पृथक्कृत तिमाही वर्ष तिमाही समाप्त समाप्त समाप्त समाप्त विवरण दिसम्बर मार्च मार्च दिसम्बर 31, 2021 31, 2022 31, 2022 31, 2021 31, 2022 31, 2021 31, 2022 31, 2021 31, 2021 31, 2021 लेखापरीक्षित अले खापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित परिचालन से कल आय, अन्य आय सहित 80,604.92 62,480.38 191,532.57 106.26 15.96 0.23 9.39 16.26 9.79 27.55 शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले (3,087.81)3,052.49 53.83 (0.72)5,953.15 (20.86)23,462.25 4,878.62 (824.53)136,376.10 शद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात (3,102.54) 3,052.49 53.83 (0.72)5.953.15 (20.86)20,154.66 1,715.17 (825.69) 144,280.1 अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु (कर पश्चात) तथ 4,287.54 176.01 951.32 8,430.27 1,163.69 21,408.31 1,841.31 126.65 146,779.88 (1,917.69)अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं] प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू., 10 प्रति शेयर) 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1.051.19 1.051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1.051.19 1,051.1 अन्य इक्विटी, एनसीआई सहित (43,214.18 अर्जन प्रति शेयर (रू. 10 / – प्रत्येक का) (वार्षिककृत नहीं, सिवाय 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेत्) क. मूल 29.04 27.20 (0.01)56.63 (0.20)138.35 8.61 (4.03)756.66 (15.22)29.04 27.20 56.63 (0.20)138.35 8.61 (4.03)756.66 (15.22)ख. तनुकृत (0.01)

वैत्तिय परिणामा के साथ जुड़े नोट्स देखे

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 30-05-2022

नोट: उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। निर्धारित प्रारूप में परिणामों का विस्तृत विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स तथा कम्पनी की वेबसाइ उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश द्वारा

वास्ते जिंदल पॉलि इन्वेस्टमेंट ऐंड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

हस्ता./-राधे श्याम निदेशक डीआईएन - 00649458

Continue.... from previous page. AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED 11.12.3 Any Shareholder Broker/Eligible Shareholder who places a bid for Physical Shares, is required to deliver the original share certificate(s) and documents (as mentioned above) along with TRS generated by exchange bidding system upon placing of bid, either by

भारतीय लेखा मानकों ('Ind AS') ("आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत") के अनुसार तैयार किए गए हैं ।

registered post, speed post or courier or hand delivery to the Registrar to the Buyback i.e. Beetal financial and Computer Services Private Limited(at the address mentioned at paragraph 14 below) not later than 2 (two) days from the offer closing date. The envelope should be superscribed as "Avonmore Buyback 2022". One copy of the TRS will be retained by Registrar to the Buyback and it will provide acknowledgement of the same to the Shareholder Broker in case of hand delivery. 11.12.4 Eligible Shareholders holding physical Equity Shares should note that physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents is submitted. Acceptance of the physical Equity Shares for the Buy back shall be subject to verification

as per the Buyback Regulations and any further directions issued in this regard. The Registrar to the Buyback will verify such bids based on the documents submitted on a daily basis and till such time the Stock Exchanges shall display such bids as 'unconfirmed physical bids'. Once the Registrar confirms the bids, it will be treated as 'Confirmed Bids'. 11.12.5 In case any Eligible Shareholder has submitted Equity Shares in physical form for dematerialisation, such Eligible Shareholders should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialised is completed well in time so that they can participate in the

Buyback before the closure of the tendering period of the Buyback. 11.12.6 An unregistered shareholder holding physical shares may also tender Equity Shares for Buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares, purchased prior to Record Date, in his name, along with the offer form, copy of his PAN card and of the person from whom he has purchased shares and other relevant documents as required for transfer, if any.

11.13 Modification/ cancellation of orders will only be allowed during the tendering period of the

11.14 The cumulative quantity of Equity Shares tendered shall be made available on the website of the Stock Exchange (BSE's website: www.bseindia.com) through out the tradingsession and will be up dated at specific intervals during the tendering period.

12.1 Upon finalization of the basis of acceptance as per Buyback Regulations:

12.1.1 The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market and as intimated by the Clearing Corporation from time to time. 12.1.2 Details in respect of shareholder's entitlement for the Buy-back shall be provided to Clearing Corporation by Company / Registrar to Buy-back. On receipt of the same, the Clearing Corporation will cancel excess or unaccepted blocked Equity Shares. On

settlement date, all blocked Equity Shares mentioned in the accepted bid will be

12.1.3 In the case of IDT, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted Equity Shares in target depository. The source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with Bid accepted detail as received from the Company or the Registrar to the Buy-back. Post receiving the IDT message from target depository, source depository will cancel/release excess or unaccepted block Equity Shares in the demat account of the Eligible Shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the Equity Shares as per the communication/message received from target depository to the extent of accepted bid Equity Shares from Eligible Shareholder's demat account and credit it to Clearing Corporation settlement account in target depository on settlement date.

The Company will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Company's Broker bank account, who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank account as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the Buyback, the Equity Shareholders will receive funds pay-out in their bank account from the Clearing Corporation

The Equity Shares bought back in the demat form would be transferred directly to the

escrow account of the Company opened for the Buyback (the "Demat Escrow Account") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Demat Escrow Account on receipt of the Equity Shares from the cleaning and settlement mechanism of the BSE. 12.1.6 The Eligible Shareholders of the Demat Shares will have to ensure that they keep the

depository participant ("DP") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non-acceptance. 12.1.7 If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Shareholder Broker's depository pool account for onward transfer to the Shareholder. In case of custodian participant orders, excess Demat Shares or unaccepted Demat Shares, if any, will be returned to the respective custodian participant. Excess Demat Shares or unaccepted Demat Shares, if

any, tendered by the Eligible Shareholders would be returned to them by Clearing Corporation. Any excess Physical Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned back to the concerned Eligible Shareholders directly by the Registrar to the Buyback. The Company is authorized to split the share certificate and issue new consolidated share certificate for the unaccepted Physical Shares, in case the Physical Shares accepted by the Company are less than the Physical Shares tendered by the shareholder in the Buyback. In case of certain shareholders viz., NRIs, non-residents etc. (where there are specific

regulatory requirements pertaining to funds payout including those prescribed by the RBI) who do not opt to settle through custodians, the funds payout would be given to their respective Shareholder Broker's settlement accounts for releasing the same to such j shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the Registrar to the Buyback.

12.1.9 The Shareholder Broker would issue contract note to the Eligible Shareholders tendering Equity Shares in the Buyback and will unblock the excess unaccepted equity shares. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

12.1.10 The settlements of fund obligation for Demat and Physical Shares shall be effected as per the SEBI circulars and as prescribed by BSE and Indian Clearing Corporation Limited from receitime to time. For Demat Shares accepted under the Buyback, such beneficial owners will receive funds payout in their bank account as provided by the depository system directly to the Clearing Corporation and in case of Physical Shares, the Clearing Corporation will release the funds to the Shareholder Broker(s) as per secondary market payout mechanism. If such shareholder's bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India ("RBI")/ bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholders will be transferred to

the Shareholder Broker for onward transfer to such shareholders. 12.1.11 Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Shareholder Broker for details of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Shareholder Broker for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the selling Shareholders, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the selling Eligible Shareholders.

12.1.12 The Equity Shares bought back will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulations Compliance Officer

The Company has designated the following as the Compliance Officer for the Buyback: Ms. Sonal Membership No. A57027 Company Secretary and Compliance Officer

E-mail: sonal.gupta@almondz.com ,website: www.avonmorecapital.in In case of any clarifications or to address investor grievance, the Eligible Shareholders may contact the Compliance Officer, on all working days, from Monday to Friday between 11:00 am (IST) to 5:00 pm (IST), at the above mentioned address.

Registrar to an Issue/Investor Service Centre Beetal Financial and Computer Services Private Limited Address:Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre,

Tel: 011-43500700

New Delhi - 110062

Tel: 011-29961281-83/ 9810276579 Fax: 011-29961284 Contact Person: Mr. Punit Mittal E-mail: Beetal@beetalfinancial.com / beetalrta@gmail.com

Website: http://www.beetalfinancial.com/ SEBI Registration Number: INR000000262 Corporate Identity Number: U67120DL1993PTC052486 In case of any queries, Eligible Shareholders may also contact the Registrar to the Buyback, on all working days, from Monday to Friday between 11:00 am (IST) to 5:00

15. Manager to the Buyback Offer



pm (IST), at the above mentioned address.

Corporate CapitalVentures Private Limited

Address: B1/E13 Mohan Cooperative Industrial Estate Mathura Road, New Delhi-110044 Tel: 011-41824066/9212650228 Fax: +91-41824066 Contact Person: Ms. Harpreet Parashar Email: acms.buyback@ccvindia.com

Website:www.ccvindia.com SEBI Registration Number: INM000012276 Corporate Identity Number: U74140DL2009PTC194657

16. Directors' Responsibility

DIN: 02590928

Date: 31" May, 2022

Place: New Delhi

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts full and final responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that this Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

DIN: 00008429

For and behalf of the Board of Directors of AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Mr. Ashok Kumar Gupta Mr. Govind Prasad Agrawal (Managing Director) (Non-Executive Chairman)

Ms. Sonal (Company Secretary & Compliance Officer) Membership Number: A57027

Sd/-

नर्ड दिल्ली

www.readwhere.com

transferred to the Clearing Corporation.